

Template for Women in STEM Forum, (General Information)

Name of the FORUM: Women in STEM:

Photographs of various events, facilities etc.

2018 Workshop



2019-20





2021-22











कड़ी मेहनत और समर्पण सफलता की कुंजी - डॉ. ममता सचदेवा

कुरुक्षेत्र (डी.आर.भटनागर) कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सुमन इन एसटीईएम (डब्ल्यूआईएस) फोरम द्वारा शुक्रवार को कुवि कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा के नेतृत्व में एसटीईएम में महिलाओं की भूमिका पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगोष्ठी की मुख्य अतिथि डॉ. ममता सचदेवा ने प्रोफेसर नीरा राघव और उनकी टीम को एसटीईएम से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी देते हुए कहा कि विस फोरम उत्तर भारत का एक प्रमुख विज्ञान मंच है और छात्राओं में वैज्ञानिक प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि समाज को छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. ममता

सचदेवा ने प्रोफेसर नीरा राघव, डॉ. सुरेश दुआ और डॉ. सुमन महेंदिया की अपने शोध कार्य के पेटेंट करने, प्रो. सुनीता दलाल की शोध परियोजना अनुदान के लिए तथा अन्य महिला संकाय की बीज धन अनुदान प्राप्त करने के लिए सराहना

की। इस मौके पर कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के इक्कीस विजेताओं को मुख्य अतिथि डॉ. ममता सचदेवा ने पुरस्कार प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने प्रेरक शब्दों से विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेना जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस मौके पर डॉ. ममता सचदेवा ने कार्यक्रम में प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की मुख्य वक्ता प्रो. सुमन बाला बेरी ने कॉस्मॉस टू क्वार्क्स पर बहुत ही दिलचस्प बातचीत की। उन्होंने टॉप क्वार्क, सिंगल टॉप क्वार्क और हिग्स बोसोन (द गॉड पार्टिकल) की खोज में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि हिग्स बोसोन वह मूलभूत कण है जिसने हमारे ब्रह्मांड के

निर्माण में मदद की। उनका व्याख्यान अत्यधिक जानकारीपूर्ण और संवादात्मक था और पूरे व्याख्यान के दौरान प्रतिभागी अत्यधिक उत्साही थे। विस फोरम की समन्वयक प्रो. नीरा राघव ने बताया कि डब्ल्यूआईएस फोरम की स्थापना महिला शोधार्थियों और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के संकायों को मजबूत बनाने और उन्हें अलग मंच प्रदान करने के लिए की गई है। गौरतलब है कि विस फोरम केयू के गठन की शुरुआत प्रोफेसर अनुरेखा शर्मा ने पद्मश्री प्रो. रोहिणी गोडबोले और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में 2019 में की थी। केयूके के विस फोरम ने 24 और 25 फरवरी को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, साइंस टॉक, पोस्टर मेकिंग और साइंस क्रिज प्रतियोगिताओं का आयोजन कर साइंस कार्निवल-2023 मनाया गया। इन प्रतियोगिताओं के पीछे मुख्य उद्देश्य जागरूकता



पैदा करना और विज्ञान विशेष रूप से पर्यावरण, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा जोखिम प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए छात्रों के बीच रुचि पैदा करना था। सेमिनार में महिला शिक्षकों, अनुसंधान विद्वानों, विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों और केयूके के संबद्ध कॉलेजों के स्नातकोत्तर और स्नातक छात्रों सहित कुल 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में डॉ. हरदीप राय शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, सलाहकार एवं आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए समिति के सदस्य डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. रुचि गुप्ता, सुश्री अंजू गोयल और डॉ. पूजा अरोड़ा ने सहयोग किया।





KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA

WIS FORUM
Organizes
SHORT TERM





Careers and Opportunities for Women in STEM-2021

SPONSORED BY



Funded under:
MHRD 2.0



CHIEF PATRON
Prof. Somnath Sachdeva, Vice-Chancellor, KUK



PATRON
Prof. Manjula Chaudhary, Dean Academic Affair and RUSA Co-ordinator, KUK



Convener
Prof. Neera Raghav
Professor, Department of Chemistry, KUK




Co-Convener
Dr. Sunita Dalal
Associate Professor, Department of Biotechnology, KUK



Organizing Secretary
Dr. Suman Mahendia
Associate Professor, Department of Physics, KUK

Duration: 30 Hrs
Every Saturday Started from
14th Aug, 2021 Onwards
Visit: <https://kuk.ac.in/>
Register on
<https://forms.gle/apEnPXux52oLw9967>
Contact:
wisforum@kuk.ac.in



कार्यशाला में विवि की पूर्व छात्राओं ने दिए व्याख्यान

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की विस फार्म की ओर से शनिवार को ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता डॉ. बिंदु और डॉ. मीनक्षी ने की। कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन के रूप में विश्वविद्यालय की पूर्व छात्राओं ने शिरकात की। पहले व्याख्यान में आईपीआर, मोरपेन सेबोरेटरीज की प्रमुख डॉ. आशा आग्रवाल ने पेटेंट, पेटेंट की आवश्यकता और पेटेंट आवेदन कैसे और कहाँ दर्ज किया जाए, इस पर बात रखी। उन्होंने पेटेंट आवेदन को उसके अनुदान तक दखिल करने की विस्तृत प्रक्रिया विस्तार से बताई। दूसरे व्याख्यान में अनुसंधान एवं विकास विभाग की युव लीडर डॉ. अरूच प्रकाश ने पेटेंट ड्राफ्टिंग और फिलिंग के नियमों पर बात की। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे पेटेंट आविष्कारों, समाज, व्यवहार और देश की मदद करता है।

कुवि में स्टैम-2021 में महिलाओं के लिए करियर और अवसरों पर लघु ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित

कुरुक्षेत्र, यशबाबू न्यूज़।
शनिवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा के कुशल नेतृत्व में स्टैम-2021 में महिलाओं के लिए करियर और अवसरों पर लघु अवधि ऑनलाइन कार्यशाला में अनुसंधान और लेखन या दूसरा संशुद्ध आर्सेनल किया गया जिसमें इस संशुद्ध के पहले व्याख्यान में डॉ. विश्वेंद्र सिंह देवासरी, प्रोफेसर एन. कुमार झावे ने विश्वेंद्र उषिष्क एंड पोस्टरीम विषय पर बोली हुई समन्वयक समन और प्रचीन समन में विज्ञान में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला और मध्य पीछा और विश्वविद्यालय पीछाओं में उभय ग्वा

एन करने के बाददूर विज्ञान करियर में महिलाओं का प्रकाश डाला करते हैं इन प्रकाश पर चर्चा की। उन्होंने बोलीओं की बताया कि कैसे महिलाएं अपने वैज्ञानिक करियर को प्रकृत बना सकते हैं।
दूसरे व्याख्यान में संकाय केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रो. विवेक कुमार लॉ ने प्रकाश और प्रीम लेखन के बारे में बात की। उन्होंने अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी के बारे में चर्चा की और प्रीम लेखन में महिलाओं के विकास के बारे में प्रकाश। दोनों व्याख्यान आर्सेनल जानकारी पूर्ण और संसाधनक थे। व्याख्यान के दौरान सभी प्रतिभागियों में आर्सेनल प्रकाश था।

दोनों एकेडमिक और सहायक समन्वयक प्रो. मंजुला चौधरी ने ऑनलाइन पूरा 4.0 में महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात की। सोमनाथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और समन विज्ञान विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की संपूर्ण प्रो. मारिगेल केंद्रोंक ने सोप के बारे में प्रकाश।
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, सलाहकार बोर्ड के सदस्य इस कार्यशाला में ऑनलाइन भाग लेकर उपस्थित हुए। इस मौके पर आर्सेनल समिति की सदस्य प्रो. नील एन. डॉ. सुनील दलाल, डॉ. सुमन महेंद्रिया, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. रवि गुप्त, डॉ. पूजा अरोड़ा, डॉ. उषिका, अंजु गोपाल और डॉ. इमटीन एन हर्ष उपस्थित थे।

कुवि के विस फोर्म द्वारा कार्यशाला आयोजित

कुरुक्षेत्र, यशबाबू समाचार
विस फोर्म, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ने शनिवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा के नेतृत्व और प्रो. मंजुला चौधरी, डीन अकादमिक मामला एवम रुसा समन्वयक के सहयोग से कार्यशाला का तीसरा भाग सफलतापूर्वक सम्पन्न किया।

पहले व्याख्यान में प्रोफेसर नीलू सुंद, अध्यक्ष, जनसंगति विज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के महत्व पर अपनी बात रखी। उन्होंने महिलाओं द्वारा किए गए उन प्राचीन वैज्ञानिक आविष्कारों पर भी चर्चा की जिन्होंने समाज के



साथ-साथ उद्योग में भी क्रांति ला दी। दूसरे व्याख्यान में प्रो. सी. स. त्रिपाठी, डीन ऑफ इंजीनियरिंग और निदेशक यूआईईटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने पेटेंट के लिए प्रोटोटाइप उत्पाद डिजाइनिंग के बारे में चर्चा की। उन्होंने यूआईईटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के संकाय सदस्यों द्वारा डिजाइन किए गए विभिन्न पेटेंटों के बारे में भी बात की। सत्र में सभी प्रतिभागियों ने भाग लिया और दोनों सत्रों में प्रतिभागियों सक्रिय रूप से बातचीत की। सत्र के अध्यक्षता डॉ. सुमन दांडा और मनीषा संभू ने की। आयोजन समिति के सदस्य प्रो. नीला रायच, डॉ. सुनील दलाल, डॉ. सुमन महेंद्रिया, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. हरदीप राय शर्मा, डॉ. रुमा गुप्ता, डॉ. पूजा अरोड़ा, डॉ. उषिका और अंजु गोपाल भी मौजूद रहे।

खरिटे उद्योग भी उद्योग कौर्डे उद्योग, या अन्य कौर्डे प्रकारान उद्योग उद्योगी यशबाबू में उद्योगना चाहते हैं, तो संपर्क करें
यशबाबू समाचारपत्र
28, कृष्णाधाम नर्सिंट, कुरुक्षेत्र
फोन : 9896085767 9467360967

कुवि के विस फोरम द्वारा कार्यशाला का चौथा भाग सफलतापूर्वक आयोजित



कुरुक्षेत्र, यशबाबु समाचार
 विस फोरम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ने उनिवर्स को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा के नेतृत्व और प्रो मंजुला चौधरी, डीन अकादमिक मामले एवं रुसा समन्वयक के सहयोग से कार्यशाला का चौथा भाग सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। मॉड्यूल की शुरुआत में संघ समन्वयक प्रो. नीर राघव ने बताया कि इस मॉड्यूल के लिए दोनों रिसोर्स पर्सन, कुवि के रसायन विज्ञान विभाग की पूर्व छात्रा

रही। डॉ. सुनीता दलकल व डॉ. सुमन महोदय की प्रतिभागियों से पिछले तीन मॉड्यूल की प्रतिक्रिया मिली। पहले व्याख्यान में डॉ. आरता अग्रवाल, प्रमुख, आईसीआर, मोरपेन लेबोरेटरीज ने पेटेंट, पेटेंट की आवश्यकता, और पेटेंट आवेदन कैसे और कहाँ दर्ज किया जाए, पर अपनी बात रखी। उन्होंने पेटेंट आवेदन को उसके अनुदान तक देखिल करने की विस्तृत प्रक्रिया पर भी चर्चा की। वहीं दूसरे व्याख्यान में डॉ. श्रेया प्रकाश, ग्रुप लीडर, अनुसंधान एवं

विकास विभाग, एस्टर इंडस्ट्रीज गुडराब ने पेटेंट ट्राफिफिंग और फिलिंग के विषयों पर बात की। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे पेटेंट आविष्कारकों, समाज, व्यापार और देश को मदद करता है। व्याख्यान के दौरान चर्चा में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला में अध्यक्षता डॉ. विंदू और डॉ. मीनाक्षी ने की। आयोजन समिति के सदस्य डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. हरदीप राव शर्मा, डॉ. उर्मिला, डॉ. पूनम अरोड़ा, डॉ. रुचि गुप्ता व अर्जु मोघल भी उपस्थित रहे।



6TH MODULE OF WORKSHOP

Kurukshetra: WIS FORUM of Kurukshetra University organised the sixth module focused on prospects for interdisciplinary collaboration in the short-term online workshop on careers and opportunities for women in STEM-2021 under the leadership of Kurukshetra University Vice-Chancellor Prof Som Nath Sachdeva and support of Prof Manjula Chaudhary, dean academic affa and RUSA Coordinator, KUK. At the onset of the module, the forum co-ordinator Prof Neera Raghav spoke about the WIS forum. Dr Mahek Dangli from the centre for bioinformatics, Maharshi Dayanand University, Rohtak delivered a talk on the introduction of bioinformatics an role of machine learning in bioinformatics.

करियर और अवसर विषय पर कार्यशाला

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्टेम-2021 में महिलाओं के लिए करियर और अवसरों पर ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अनुसंधान और वैशिकता पर दूसरा महिलाएं आयोजित किया गया। जिसमें तीन सिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्रो. पवन कुमार शर्मा ने सिसर्च अधिष्ठाता एंड प्रोफेसरियल डिप्टी पर व्याख्यान दिया।

केयू में स्टेम- 2021 में महिलाओं के लिए करियर और अवसरों पर कार्यशाला आयोजित

उन्होंने अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी के बारे में चर्चा की और शोध परियोजनाओं के डिजाइन के बारे में बताया।

डॉन एकेडमिक और सहायक प्रो. मंजुला चौधरी ने ऑनलाइन चर्चा 4.0 में महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात की। कोलॉजियल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और रसायन विज्ञान विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा प्रो. बलविंदर कौटिल ने शोध के बारे में बताया। इस मौके पर आयोजन समिति की सदस्य प्रो. नीरा लक्ष्मी, डॉ. सुनीता दत्त, डॉ. सुधन महारिवा, डॉ. सुरेश कुमार, डॉ. रवि गुप्ता, डॉ. पूजा अरोड़ा, डॉ. उर्मिला, अनु. सेपल और डॉ. हरदीप राय सभी उपस्थित थीं।

कार्यशाला में प्राचीन वैज्ञानिक आविष्कारों पर की चर्चा

कुरुक्षेत्र। शनिवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुर्क्षेत्र प्रो. सोमनाथ सचदेवा के नेतृत्व और प्रो मंजुला चौधरी, डॉन अकादमिक मामला एचएम सहायक के सहयोग से कार्यशाला का तीसरा भाग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पहले व्याख्यान में प्रो. नीलू रूद्र, अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र ने वैज्ञानिक संस्था अधिष्ठाता के महत्त्व पर अपनी बात रखी। उन्होंने महिलाओं द्वारा किए गए उन प्राचीन वैज्ञानिक आविष्कारों पर भी चर्चा की जिन्होंने समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। दूसरे व्याख्यान में प्रो. नीलू रूद्र, अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की।

KU HOLDS CAREER WORKSHOP

Kurukshetra: The WIS Forum, KU, organised a short-term online workshop on careers and opportunities for women in STEM-2021. Prof Som Nath Sachdeva, Vice Chancellor, said the workshop would motivate women teachers and scholars to enhance the quality of research and teaching in higher education. The workshop was inaugurated by Prof Manjula Chaudhary, dean, academic affair, KU.

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA
(Established by the State Legislature Act XII of 1956)
(“A” Grade NAAC Accredited)



WIS FORUM
COMMEMORATING



आजादी का
अमृत महोत्सव

Organizes

SCIENCE CARNAIVAL-2022



Do you enjoy learning about Science, Technology, Engineering and Mathematics ?

Have MORE great ideas for Scientific story and poster ?

Want to be a part of leading society?

Want to compete with others ?

Prize Distribution: 11th Feb, 2022

WIS motto: "Working together for Igniting mind through Science for nature"

Web: https://www.kuk.ac.in/information.php?m=dg=&L01_id=Nzc=&L01_direction=V

Email: wisforum@kuk.ac.in

22nd Jan
2022
to 11th Feb
2022



Join and Register for Events:
Expert Scientific lectures; Science
Quiz; Poster making & Science story
telling & Power Point Presentation

कुवि में विस केयूके साइंस कार्निवल 2022 का हुआ आयोजन

कुरुक्षेत्र, 24 जनवरी (जसबीर दुग्गल) : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव व 23 जनवरी को नेता जी सुभाषचंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को विज्ञान कार्निवल -2022 शुरू किया है।

छत्रों के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस विज्ञान कार्निवल में विज्ञान-प्रश्नोत्तरी, ऑन-स्पॉट पोस्टर पर चार अलग-अलग गतिविधियां करवाई गईं जिनमें क्विज, पोस्टर मेकिंग, स्टोरी टेलिंग और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन शामिल है। समारोह के प्रारंभिक सत्र में लक्षावध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस. के. मेहता ने युवा छत्रों को विज्ञान के मूल सिद्धांतों

का टेक्नोलॉजी के विकास में योगदान का महत्व बताया तथा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। अपने सूचनात्मक व्याख्यान में उन्होंने छत्रों से नौकरी मांगने के बजाय नौकरी प्रदाता बनने का संदेश दिया। प्रोफेसर मेहता ने स्टार्टअप के महत्व पर भी ध्यान आकर्षित किया।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने अपने संदेश में विस मंच द्वारा आयोजित कार्निवल के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं तथा विभिन्न आनलाइन गतिविधियों में भाग लेने का महत्व बताया ताकि वे खुद को व्यस्त रखें और महामारी के समय में अपडेट भी रहें।

अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे युवा पीढ़ी : प्रो. मेहता

संवाद न्यूज एजेंसी

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम ने नेता जी सुभाषचंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में साइंस कार्निवल-2022 शुरू किया। प्रारंभिक सत्र में लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसके मेहता ने विद्यार्थियों को विज्ञान के मूल सिद्धांतों का टेक्नोलॉजी के विकास में योगदान का महत्व बताया और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया।



प्रो. एसके मेहता।

उन्होंने छात्रों से नौकरी मांगने के बजाय नौकरी प्रदाता बनने का संदेश दिया। प्रो. मेहता ने स्टार्टअप के महत्व पर भी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने अपने संदेश में विस मंच द्वारा आयोजित कार्निवल के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी तथा विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों में भाग लेने का महत्व बताया, ताकि वे खुद को व्यस्त रखे और महामारी के समय में अपडेट भी रहें।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में साइंस कार्निवल-2022 का शुभारंभ कराई गई कई गतिविधियां

विद्यार्थियों के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान प्रश्नोत्तरी, ऑन दी स्पॉट पोस्टर मेकिंग, स्टोरी टेलिंग और पावर प्रेजेंटेशन गतिविधियां कराई गईं।

डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. मंजुला ने कार्निवाल के प्रतिभागियों और आयोजकों को अपनी शुभकामनाएं दी। फोरम कोऑर्डिनेटर प्रो. नीरा राघव ने विद्यार्थियों को विस और इसके उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में बताया। ऑनलाइन क्विज का आयोजन सुरेश दुआ, डॉ. रुचि गुप्ता और डॉ. हरदत्त शर्मा ने किया।

क्विज में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कई कलेजों और विभिन्न शिक्षण विभागों के 153 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। श्रेणी में प्रांजल, पूजा, अजीत और तन्वी विजेता रहीं। स्नातकोत्तर वर्ग में तनु शर्मा, कुमार, अमन और याशिका विजेता रहीं। मौके पर डॉ. सुनीता दलाल, डॉ. महेंद्रिया, डॉ. उर्मिला, अंजू गोयल और डॉ. अरोड़ा मौजूद रहीं।

पंजाब वैक्सरी P-IV

युवाओं को सजग व इनोवेटिव रहकर नेशनल बिल्डिंग में योगदान की आवश्यकता

कुरुक्षेत्र, 24 जनवरी (धमीजा): कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम आज्ञादी के 75वें अमृत महोत्सव व 23 जनवरी को नेता जी सुभाषचंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को विज्ञान कार्निवल -2022 शुरू किया है। इस कार्यक्रम के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस विज्ञान कार्निवल में विज्ञान-प्रश्नोत्तरी, ऑन-स्पॉट पोस्टर पर चार अलग-अलग गतिविधियां करवाई गईं जिनमें क्विज, पोस्टर मेकिंग, स्टोरी टेलिंग और पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन शामिल है। समारोह प्रारंभिक सत्र में लद्दाख विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस. के. मेहता ने युवाओं को विज्ञान के मूल सिद्धांतों का टेक्नोलॉजी के विकास में योगदान का महत्व बताया तथा अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। अपने सूचनात्मक व्याख्यान में उन्होंने छात्रों से नौकरी मांगने के बजाय नौकरी प्रदाता बनने का संदेश दिया। प्रोफेसर मेहता ने स्टार्टअप के महत्व पर भी ध्यान आकर्षित किया।

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA
 (Established by the State Legislature Act XII of 1956)
 ("A++"Grade NAAC Accredited)



WIS FORUM
 COMMEMORATING



Organizes

SCIENCE CARNAVAL-2022

Topic of Talk "Creativity in Science and Technology: Differentiating Great, Average and Small Minds"



Prof. Manjula Chaudhary
 Dean Academic Affairs
 Kurukshetra University
 (Patron)



Prof. Som Nath Sachdeva
 Vice Chancellor
 Kurukshetra University
 (Chief Patron)




Prof. S K Mehta
 Vice Chancellor
 University of Ladakh
 (Invited Speaker)

22.01.22
 INVITED
 &
 SCIENCE

Talk at 11.00 AM, join via live you tube link

<https://youtube.com/channel/UCGICRGsbA1ooBxFJK5RqeCQ>

Organizing Committee
 WIS Forum 2021, K



KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA

(Established by the State Legislature Act XII of 1956)
(“A” Grade NAAC Accredited)



WIS FORUM

COMMEMORATING

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



Organizes

SCIENCE CARNAIVAL-2022

Topic: Space sciences and Technology



Prof. Manjula Chaudhary
Dean Academic Affairs
Kurukshetra University
(Patron)



Prof. Som Nath Sachdeva
Vice Chancellor
Kurukshetra University
(Chief Patron)



Prof. Sandeep Sahijpal
Panjab University,
Chandigarh
(Invited Speaker)

29.01.2022
INVITED TALK
&
POSTER
COMPETITION


Talk at 11.00 AM, join via live you tube link

<https://youtube.com/channel/UCGICRGsbA1ooBxFlK5RqeCQ>

Organizing Committee,
WIS Forum, KUK




Sandeep Sahijpal is presenting




Radio wave



IR




Visible



UV



Extreme UV



X-rays

Dr. S. Sahijpal, Panjab University, Chandigarh

wis forum	wis forum
Nandani Saini	Meenal
neera raghav	Vaibhav Sharma
Rudra Pratap Singh	Sandeep Sahijpal
49 others	You

12:02 PM | Day-2 (Expert Lecture and Poster Making Co...



Type here to search



18°C | 12:02 | 29-01-2022

कुवि के विस फोरम द्वारा विज्ञान कार्निवल 2022 का दूसरा कार्यक्रम आयोजित

कुरुक्षेत्र, यशबाबु न्यूज।

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम द्वारा विज्ञान कार्निवल 2022 का दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, के प्रोफेसर संदीप सहिजपाल द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक विशेष व्याख्यान दिया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तत्वों के निर्माण और जीवन के लिए तरल पानी के महत्व के बारे में बताया। इसके अलावा, डॉ. सहिजपाल ने प्रतिभागियों को इसरो सहित अंतरिक्ष विज्ञान में विभिन्न करियर विकल्पों के साथ-साथ उपयुक्त सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों के बारे में भी बताया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने अपने संदेश में कहा कि ऐसी ऑनलाइन गतिविधियों के महत्व से अवगत कराया ताकि छात्रों की रचनात्मकता ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के दौरान प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

डीन एकेडमिक अफेयर प्रो मंजुला चौधरी ने भी कार्यक्रम का महत्व बताया। मंच की समन्वयक प्रो. नीरा राघव ने मुख्य अतिथि को बहुमूल्य और ज्ञानवर्धक वार्ता के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि स्कूल,




स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तीन अलग-अलग श्रेणियों में ऑनलाइन पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता के लिए कुल 96 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। कैटेगरी-1 के आयोजक डॉ. सुनीता दलाल और डॉ. अंजू ने बताया कि डॉ. मंजूषा चौधरी और डॉ. नीलिमा दुबे (सदस्य, निर्णायक मंडल) ने 29 प्रतिभागियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद विजडम वर्ल्ड स्कूल, से मिस्टर भावेश (पहले), जीएसएसएसके से दीपक (दूसरे), यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल, कुरुक्षेत्र से मिसबा नाज़ (तीसरे) व स सोफिया, महाराणा प्रताप पब्लिक स्कूल, कुरुक्षेत्र (सात्वना पुरस्कार) के विजेताओं का निर्णय किया। द्वितीय श्रेणी (स्नातक) की प्रतियोगिता का आयोजन डॉ. उर्मिला व डॉ. पूजा ने किया। 52 प्रतिभागियों में निर्णायक मंडल डॉ.

अनीता भटनागर और डॉ प्रणय जैन ने आयोजकों को पुरस्कार विजेताओं की जानकारी दी। आर्य पीजी कॉलेज पानीपत की शालू कुमारी ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जैस्मीन, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, केयूके, पायल, दयानंद महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र और हर्षदीप जीसीडब्ल्यू शहजादपुर ने क्रमशः दूसरा, तीसरा और सात्वना पुरस्कार हासिल किया।

तृतीय श्रेणी प्रतियोगिता का आयोजन डॉ. सुमन मेहंदिया और डॉ. सुरेश कुमार द्वारा किया गया था जिसमें 15 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। डॉ. अनीता दुआ और डॉ. जितेंद्र खटकड ने अपने फैसले के बाद तन्त्रू, एमएससी माइक्रो बायोलॉजी प्रथम सेमेस्टर (प्रथम पुरस्कार), मनीषा, एमएससी रसायन विज्ञान फाइनल (द्वितीय पुरस्कार) आशीष सोबती, दयाल सिंह कॉलेज को अंतिम रूप दिया। करनाल (तृतीय पुरस्कार) और शिवेंद्र कुमार, एम.एससी.टेक। अनुप्रयुक्त भूभौतिकी (सात्वना पुरस्कार) विजेताओं के रूप में। सभी वर्गों में प्रतियोगिता बहुत कठिन थी और सभी न्यायाधीशों ने अपने ज्ञान और उत्साही शब्दों से छात्रों को प्रेरित किया। डॉ रुचि गुप्ता और डॉ. हरदीप राय शर्मा ने ऑनलाइन कार्यक्रम में हर समय निष्पक्ष निर्णय और आंकलन के लिए निर्णायकों को धन्यवाद दिया।



The presentation slide displays two circular images of Mars, each with a color-coded altitude scale. The scale ranges from -8 km (blue) to 12 km (red). The text 'Mars Remote Sensing' is written in yellow. The Zoom interface shows a list of participants including Nandani Saini, Meenal, Dr. Anita Bhatnagar, Vaibhav Sharma, Rudra Pratap Singh, Sandeep Sahijpal, and 51 others.



पोस्टर प्रतियोगिता में भावेश, शालू, तन्नू प्रथम

संवाद न्यूज एजेंसी

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम ने विज्ञान कार्निवल-2022 का दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान तीन श्रेणियों में आयोजित ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता में भावेश, शालू कुमारी और तन्नू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

मुख्य वक्ता पंजाब विश्वविद्यालय के प्रो. संदीप सहजपाल ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने प्रतिभागियों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तत्वों के निर्माण और जीवन के लिए तरल पानी के महत्व के बारे में बताया। इसके अलावा इसरो सहित अंतरिक्ष विज्ञान में विभिन्न करियर विकल्पों के साथ-साथ उपयुक्त सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों के बारे में जानकारी दी।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि छात्रों की रचनात्मकता ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के दौरान प्रभावित नहीं होनी चाहिए। डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. मंजुला चौधरी ने भी कार्यक्रम का महत्व बताया। समन्वयक प्रो. नीरा राघव ने बताया कि स्कूल, स्नातक और स्नातकोत्तर श्रेणियों में ऑनलाइन पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता के लिए कुल 96 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। स्कूल स्तर की प्रतियोगिता में विजडम वर्ल्ड स्कूल से भावेश को प्रथम, जीएसएसएसके से दीपक द्वितीय, यूनिवर्सिटी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल से मिसबा नाज तीसरे स्थान पर रहीं। पहली श्रेणी (स्कूल) के आयोजक डॉ. सुनीता दलाल और डॉ. अंजू रहीं।

केयू के विस फोरम ने विज्ञान कार्निवल का दूसरा कार्यक्रम किया आयोजित



ऑनलाइन पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते शिक्षक व विद्यार्थी।

द्वितीय श्रेणी (स्नातक) की प्रतियोगिता का आयोजन डॉ. उर्मिला व डॉ. पूजा ने किया। इसमें आर्य पीजी कॉलेज पानीपत की शालू कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जैस्मीन ने द्वितीय, दयानंद महिला महाविद्यालय की छात्रा पायल ने तीसरा स्थान हासिल किया।

तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर) प्रतियोगिता का आयोजन डॉ. सुमन मेहंदिया और डॉ. सुरेश कुमार ने किया। इस में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रथम सेमेस्टर की छात्रा तन्नू पहले, एमएससी रसायन विज्ञान फाइनल की छात्रा मनीषा दूसरे, दयाल सिंह महाविद्यालय के आशीष सोबती तीसरे स्थान पर कब्जा किया। इस अवसर पर डॉ. रुचि गुप्ता और डॉ. हरदीप राय शर्मा आदि मौजूद रहे।

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA

(Established by the State Legislature Act XII of 1956)
(*A**Grade NAAC Accredited)



WIS FORUM

COMMEMORATING



आजादी का अमृत महोत्सव

Organizes

SCIENCE GARNIVAL-2022

Topic: Science and Technology in Life, Society and National Development



Prof. Manjula Chaudhary
Dean Academic Affairs
Kurukshetra University
(Patron)

Prof. Som Nath Sachdeva
Vice Chancellor
Kurukshetra University
(Chief Patron)

Shri Krishan Singhal
AGM,
Indian Oil Corporation Ltd
Faridabad
(Invited Speaker)

31.01.22
INVITED
&
STORY
TELLING
COMPETITION

Talk at 11.00 AM, join via live you tube link

<https://youtube.com/channel/UCGICRGsbA1ooBxFJK5RqeCQ>

Organizing Committee
WIS Forum, KUK

कुवि के विस फोरम द्वारा साइंस कार्निवल-2022 का तीसरा दिन विज्ञान कहानी कहने की प्रतियोगिता आयोजित

कुरुक्षेत्र, 1 फरवरी (धमीजा) : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सोमवार विज्ञान कार्निवल-2022 के अंतर्गत विज्ञान कहानी कहने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्यातिथि कृष्ण सिंघल, अतिरिक्त महाप्रबंधक, भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद ने प्राचीन इतिहास से आधुनिक युग तक विज्ञान की यात्रा पर चर्चा की।

उन्होंने विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, रसायन विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय बुद्धिजीवियों के योगदान का उल्लेख किया। उनके अनुसार छात्रों को हमारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने आगे छात्रों और शोधकर्ताओं से भारत की जी.डी.पी. को बढ़ाने में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास में विज्ञान



प्रतियोगिता में शामिल छात्र।

की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

कुवि कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेव अपने संदेश में बताया कि इस तरह ऑनलाइन गतिविधियां वैज्ञानिक रचनात्मकता में सुधार और वृद्धि करती हैं और छात्रों शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुवि अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले प्रो. मंजुला च ने भी कार्यक्रम के महत्व पर जोर दे आयोजकों को बधाई दी।

फोरम को-ऑर्डिनेटर प्रो. नीरा रा ने मुख्य अतिथि और सभी प्रतिभागियों का स किया और छात्रों को विस फोरम के यु इसके उद्देश्यों और गतिविधियों के ब बताया। ऑनलाइन प्रतियोगिता का बच्चों के बीच रचनात्मक सोच और विज्ञान में सुधार और विकास करना

कहानी प्रतियोगिता में समृद्धि प्रथम केयू में साइंस कार्निवल -2022 के तहत किया गया आयोजन

संवाद न्यूज एजेंसी

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम की ओर से विज्ञान कार्निवल-2022 के तहत तीसरे दिन सोमवार को विज्ञान कहानी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। जिलेभर के विभिन्न स्कूलों के 23 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया।

इस दौरान प्रतिभागियों ने ऊर्जा संचयन और भंडारण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सतत पर्यावरण, एसटीईएम में महिलाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय विज्ञान योगदानकर्ताओं पर अपनी कहानियां साझा की। प्रतियोगिता में समृद्धि ने पहला, वंशिका ने दूसरा, सोफिया ने तीसरा तथा प्रज्ञा, हरसिमरन व अविका ने

सांत्वना पुरस्कार हासिल किया। मुख्य अतिथि भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन से अतिरिक्त महाप्रबंधक कृष्ण सिंघल ने प्राचीन इतिहास से आधुनिक युग तक विज्ञान की यात्रा पर चर्चा की।

उन्होंने विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, रसायन विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय बुद्धिजीवियों के योगदान का उल्लेख किया। कहा कि छात्रों को हमारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने छात्रों और शोधकर्ताओं से भारत की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की

अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले प्रो. म. चौधरी ने भी कार्यक्रम के महत्व पर बताने देते हुए आयोजकों को बधाई दी। कोऑर्डिनेटर प्रो. नीरा राघव ने प्रतिभागियों को विस फोरम और इसके उद्देश्यों पर गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम ऑनलाइन प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक सोच और विज्ञान में सुधार और विकास करना है। प्रतियोगिता डॉ. सुमन महेंदिया, उर्मिला और डॉ. हरदीप राय शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कराई गई। निर्णायक भूमिका डॉ. हरदीप आनंद और मीनाक्षी सुहाग ने निभाई। इस अवसर पर डॉ. सुरेश दुआ, डॉ. सुनीता दलाल, डॉ. पूजा अरोड़ा, डॉ. रुचि गुप्ता और अंजू गोयल उपस्थित थीं।

केयू विस फोरम ने करवाई विज्ञान कहानी प्रतियोगिता

भास्कर न्यूज | कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को विज्ञान कार्निवल-2022 के तहत विज्ञान कहानी कहने की प्रतियोगिता आयोजित की। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद के अतिरिक्त महाप्रबंधक कृष्ण सिंघल रहे। उन्होंने प्राचीन इतिहास से आधुनिक युग तक विज्ञान की यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, रसायन विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय बुद्धिजीवियों के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों को हमारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कृष्ण सिंघल ने शोधकर्ताओं से भारत की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केयू कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि इस तरह की

ऑनलाइन गतिविधियां वैज्ञानिक रचनात्मकता में सुधार और वृद्धि करती हैं। केयू की डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. मंजू चौधरी ने कार्यक्रम आयोजकों को बधाई दी। विस फोरम कोऑर्डिनेटर प्रो. नीरा राघव ने बताया कि कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के कुल 23 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने ऊर्जा संचयन और भंडारण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सतत पर्यावरण, एसटीईएम में महिलाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय विज्ञान योगदानकर्ताओं पर अपनी कहानियां कहीं। डॉ. सुमन महेंदिया, डॉ. उर्मिला और डॉ. हरदीप राय शर्मा ने ऑनलाइन साइंस स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम निर्णायक मंडल डॉ. हरदीप आनंद और डॉ. मीनाक्षी सुहाग रही। प्रतियोगिता में समृद्धि वंशिका, सोफिया, प्रज्ञा, हरसिमरन और अविका विजेता रहीं। इस अवसर पर डॉ. सुरेश दुआ, डॉ. सुनीता दलाल, डॉ. पूजा अरोड़ा, डॉ. रुचि गुप्ता और अंजू गोयल मौजूद रहीं।

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA

(Established by the State Legislature Act XII of 1956)
("A**Grade NAAC Accredited)



WIS FORUM

COMMEMORATING

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Organizes



SCIENCE CARNIVAL-2022

Topic- Ancient Indian Science: An Inspiration to Modern World



Prof. Manjula Chaudhary
Dean Academic Affairs
Kurukshetra University
(Patron)



Prof. Som Nath Sachdeva
Vice Chancellor
Kurukshetra University
(Chief Patron)



Dr. Anurag Gaur,
J.C.Bose Univ. Sci. & Tech.
Faridabad
(Invited Speaker)

04.02.2022
INVITED TALK
&
POWER POINT
PRESENTATION

Talk at 11.00 AM, join via live you tube link

<https://youtube.com/channel/UCGICRGsbA1ooBxJK5RqeCQ>

Organizing Committee
WIS Forum, KUK

कहानी प्रतियोगिता में समृद्धि प्रथम

केयू में साइंस कार्निवल -2022 के तहत किया गया आयोजन

संवाद न्यूज एजेंसी

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम की ओर से विज्ञान कार्निवल-2022 के तहत तीसरे दिन सोमवार को विज्ञान कहानी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। जिलेभर के विभिन्न स्कूलों के 23 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया।

इस दौरान प्रतिभागियों ने ऊर्जा संचयन और भंडारण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सतत पर्यावरण, एसटीईएम में महिलाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय विज्ञान योगदानकर्ताओं पर अपनी कहानियां साझा की। प्रतियोगिता में समृद्धि ने पहला, वंशिका ने दूसरा, सोफिया ने तीसरा तथा प्रज्ञा, हरसिमरन व अविना ने

सांत्वना पुरस्कार हासिल किया। मुख्य अतिथि भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन से अतिरिक्त महाप्रबंधक कृष्ण सिंघल ने प्राचीन इतिहास से आधुनिक युग तक विज्ञान की यात्रा पर चर्चा की।

उन्होंने विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, रसायन विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय बुद्धिजीवियों के योगदान का उल्लेख किया। कहा कि छात्रों को हमारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने छात्रों और शोधकर्ताओं से भारत की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की

अधिष्ठाता शैक्षणिक मामले प्रो. चौधरी ने भी कार्यक्रम के महत्व पर बताने हुए आयोजकों को बधाई दी। कोऑर्डिनेटर प्रो. नीरा राघव ने प्रतिभागियों को विस फोरम और इसके उद्देश्य गतिविधियों के बारे में बताया। कार्यक्रम ऑनलाइन प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच रचनात्मक सोच और विज्ञान में सुधार और विकास करना है। प्रतियोगिता डॉ. सुमन महेंद्रिय उर्मिला और डॉ. हरदीप राय शर्मा के द्वारा आयोजित कराई गई। निर्णायक भूमिका डॉ. हरदीप आनंद और मीनाक्षी सुहाग ने निभाई। इस अवसर पर डॉ. सुरेश दुआ, डॉ. सुनीता कौर, डॉ. पूजा अरोड़ा, डॉ. रुचि गुप्ता और डॉ. गोयल उपस्थित थीं।

विज्ञान कार्निवल में तन्नु को मिला प्रथम पुरस्कार

जगरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम की ओर से आयोजित विज्ञान कार्निवल में दूसरे आनलाइन कार्यक्रम में एमएससी माइक्रोबायोलॉजी प्रथम सेमेस्टर की तन्नु ने पहला स्थान हासिल किया है। इसी प्रतियोगिता में एमएससी रसायन विज्ञान अंतिम वर्ष की मनीषा दूसरे और दयाल सिंह कालेज करनाल के आशीष सोबती तीसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि भूभौतिकी विभाग से एमएससी की अंतिम वर्ष के शिवेंद्र कुमार को सात्वना पुरस्कार दिया गया है।

कार्यक्रम में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के प्रो. संदीप सहजपाल ने अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने प्रतिभागियों की ब्रह्मांड की उत्पत्ति और तत्वों के निर्माण और जीवन के लिए तरल पानी के महत्व के बारे में भी बताया। कुवि कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि इस तरह की आनलाइन गतिविधियाँ विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हैं। डीन

एकेडमिक अफेयर प्रो मंजुला चौध ने भी कार्यक्रम का महत्व बताया। मंच की समन्वयक प्रो. नीरा राय ने बताया कि सोमवार को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर तीन अलग-अलग श्रेणियों में आनलाइन पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता के लिए कुल 96 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है।

स्नातक श्रेणी में प्रतियोगिता आयोजन डा. उर्मिला व डा. पूजा किया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में डा. अनीता भटनागर और डा. प्रणय जैन शामिल रहे। प्रतियोगिता में पानीपत के अरुण पीजी कालेज की शालू कुमारी पहला, कुवि के इस्टीमेटेड अफार्मस्युटिकल साइंसेज की जैस्मिने ने दूसरा, दयानंद महिला महाविद्यालय की पायल ने तीसरा स्थान हासिल किया है। जीसीडब्ल्यू शहजाद की पायल को सात्वना पुरस्कार दिया गया है। इस आनलाइन कार्यक्रम में डा. सुनीता दलाल, डा. अंजू, मंजुषा चौधरी व डा. नीलिमा दूबे जुड़ी रही।



The screenshot shows a Google Meet interface. The main video window displays Dr. Anurag Gaur, who is wearing glasses and a dark vest over a light blue shirt. The right sidebar contains a grid of participant thumbnails. The top row includes 'wis forum' (with a logo), 'neera baghav', and 'Nitin Verma'. The second row shows 'wis forum', 'Pooja Arora', and 'Sushmita Jaglan'. The third row features 'Sanjana Sau', 'Himani Gahlawat', and '35 others'. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 11:02 AM, the date 04-02-2022, and the weather 1°C Rain showers.

केयू विस फोरम ने करवाई विज्ञान कहानी प्रतियोगिता

भास्करन्यूज़ | कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विस फोरम ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को विज्ञान कार्निवल-2022 के तहत विज्ञान कहानी कहने की प्रतियोगिता आयोजित की। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद के अतिरिक्त महाप्रबंधक कृष्ण सिंघल रहे। उन्होंने प्राचीन इतिहास से आधुनिक युग तक विज्ञान की यात्रा पर चर्चा की। उन्होंने विज्ञान, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, रसायन विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में भारतीय बुद्धिजीवियों के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों को हमारे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कृष्ण सिंघल ने शोधकर्ताओं से भारत की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केयू कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि इस तरह की

ऑनलाइन गतिविधियां वैज्ञानिक रचनात्मकता में सुधार और वृद्धि करती है। केयू की डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. मंजुला चौधरी ने कार्यक्रम आयोजकों को बधाई दी। फोरम को ऑर्डिनेटर प्रो. नीरा राघव ने बताया कि कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के कुल 23 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने ऊर्जा संचयन और भंडारण, स्वच्छ और हरित ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सतत पर्यावरण, एसटीईएम में महिलाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारतीय विज्ञान योगदानकर्ताओं पर अपनी कहानियां कहीं। डॉ. सुमन महेदिया, डॉ. उर्मिला और डॉ. हरदीप राय शर्मा ने ऑनलाइन साइंस स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल डॉ. हरदीप आनंद और डॉ. मीनाक्षी सुहाग रही। प्रतियोगिता में समृद्धि, वंशिका, सोफिया, प्रज्ञा, हरसिमरन और अविष्कार विजेता रही। इस अवसर पर डॉ. सुरेश दुआ, डॉ. सुनीता दलाल, डॉ. पूजा अरोड़ा, डॉ. रुचि गुप्ता और अंजू गोयल मौजूद रहीं।



CLEAN ENERGY

GREEN ENERGY

Sofia

Anju Goyal Institute of U...

neelima dubey

Ms

Ms MANJUSHA

PRASHANT RANA

S

SUNITA DALAL

You

meet.google.com/fvg-khwn-tua?authuser=0

DIVYA Gillani

ashish sobti

MANISHA

divya grover

Tejasavi

Akansha Yadav

Muskan Pundir

Tannu

Uttender Khatkar

shivender kumar

anita dua

Dr. Suresh dua

You

1:22 PM | fvg-khwn-tua

REC

Sri Krishan Singhal

POOJA Mm Singh

ISHA DEVI HAMISHA KATHURIA

HARSH SHARMA SANJOLI

90 others You

11:03 AM | Day-3 (Expert Lecture and Science St...

Type here to search 14°C Cloudy 11:03 AM 31-Jan-22

https://meet.google.com/upa-pmrx-hci?pli=1

REC

POOJA ISHA DEVI HAMISHA KATHURIA

Mm Singh HARSH SHARMA Sri Krishan Singhal

MANSI GABA 83 others You

10:59 AM | Day-3 (Expert Lecture and Science St...

Type here to search 14°C Cloudy 10:59 AM 31-Jan-22

कुवि में विस केयूके साइंस
कार्निवल 2022 का हुआ आयोजन

अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित
करे युवा पीढ़ी : प्रो. मेहता

कुवि के विस फोरम द्वारा विज्ञान कार्निवल 2022 का दूसरा कार्यक्रम आयोजित

युवाओं को सजग व इनोवेटिव रहकर नेशन
बिल्डिंग में योगदान की आवश्यकता

कुवि के विस फोरम द्वारा विज्ञान कार्निवल
2022 का दूसरा कार्यक्रम आयोजित

पोस्टर प्रतियोगिता में
भावेश, शालू, तन्नू प्रथम

कहानी प्रतियोगिता में समृद्धि प्रथम
केयू में साइंस कार्निवल - 2022 के तहत किया गया आयोजन

कुवि के विस फोरम द्वारा साइंस कार्निवल-2022 का तीसरे
दिन विज्ञान कहानी कहने की प्रतियोगिता आयोजित

केयू विस फोरम ने करवाई
विज्ञान कहानी प्रतियोगिता
विज्ञान कार्निवल में तन्नू
को मिला प्रथम पुरस्कार

केयू विस फोरम ने करवाई
विज्ञान कहानी प्रतियोगिता

The screenshot shows a Zoom meeting in progress. The interface includes a 'REC' indicator in the top left corner. The main area displays a grid of 14 video thumbnails. The participants are: meenakshi suhag, neera raghav, Avika Goel, HARDEEP ANAND, Dharmendra Singh Kumar, Vanshika Gumber, Ridhima Dua, Pragya Pandey, Dr. Urmila rani, Ananya Gupta, Preeti Bali, Sunil Kumar, mahima Arora midha, and Aayra Gupta. Below the grid, there are five more thumbnails: neera raghav, wis forum, Prabha Chauhan, Gurmukh Singh, and wis forum. A 'You' thumbnail is also visible in the bottom right. The bottom control bar shows the time as 1:45 PM, the meeting title 'Day-3 (Expert Lecture and Science Story Telling C...', and various icons for mute, video, chat, and other controls.

KURUKSHETRA UNIVERSITY, KURUKSHETRA

(Established by the State Legislature Act XII of 1956)
("A" Grade NAAC Accredited)



WIS FORUM

COMMEMORATING

आजादी का
अमृत महोत्सव

Organizes



Prize Distribution Event of

SCIENCE CARNAVAL-2022



CELEBRATION OF INTERNATIONAL DAY OF WOMEN AND GIRLS IN SCIENCE

On 11-2-22

Live on YouTube

11.00 AM
onwards



Prof. Manjula Chaudhary
Dean Academic Affairs
Kurukshetra University
(Patron)



Prof. Som Nath Sachdeva
Vice Chancellor
Kurukshetra University
(Chief Patron)



Prof. Suman Beri
Punjab University
Chandigarh
(Invited Speaker)



Google Meet link: <https://meet.google.com/upa-pxnx-hci>

YouTube Link : <https://youtube.com/channel/UCGICRGsbA1ooBxFJK5RqeCQ>

WIS motto: "Working together for Igniting mind through Science for nature"

Email: wisforum@kuk.ac.in

meet.google.com/upa-pxnx-hci?authuser=0


REC



Vice-Chancellor, K.U. Kurukshetra



neera raghav




Dr. Hardeep Rai Sharma




Suman Beri




Pooja Arora



Pooja



HARSHIT KAUR




71 others



You


11:19 AM | Day-5 (Expert Lecture and Prize distributi...



Browser tabs: Inbox (666) - nraghav@kuk.ac.in | Meet - Day-5 (Expert Lectur... | +

Address bar: <https://meet.google.com/upa-pxnx-hci?pli=1>

Meeting controls: REC | Suman Beri is presenting



Participant grid:

- Suman Beri
- wis forum
- Pooja Arora
- POOJA RANI
- Ruchi Gupta
- r Jangra
- JYOTI KATHURIA
- Suman Be...
- 40 others


Meeting info: 11:55 AM | Day-5 (Expert Lecture and Prize distri... | 49 participants

Windows taskbar: Windows logo, Search, Task View, File Explorer, Edge, Word, Outlook, Teams, Zoom, Chrome, Firefox, VLC, LibreOffice, Paint, Notepad, System tray (Network, Volume, Power) | 11:55 11-02-2022

Browser tabs: Kurukshetra University - Calend... | Meet - Day-5 (Expert Lectur... | +

Address bar: meet.google.com/upa-pxnx-hci?authuser=0

Meeting controls: REC | Suman Beri is presenting



Participant grid:

- Suman Beri (Presenting)
- neera raghav
- Pooja Arora
- Vice-Chancellor, K.U. Kur...
- HARSHIT KAUR
- Manishita Rani
- 54 others
- You


Meeting info: 11:43 AM | Day-5 (Expert Lecture and Prize distributi... | 62 participants

Windows taskbar: Windows logo, File Explorer, Edge, Word, Outlook, Teams, Zoom, Chrome, Firefox, VLC, LibreOffice, Paint, Notepad, System tray (Network, Volume, Power) | 11:43 11-02-2022



You have extensions installed that may affect the quality of your call

Learn more Dis



Grid of video call participants:

- Anju Goyal...
- neelima dubey
- Ms. MANJU
- Nimmi Gumber
- Ishant Verma
- sangay kum...
- KARTIK 10437...
- Rudra Pratap
- Misba Naas...
- Parveen Rajput
- 12 others
- You

2:08 PM | cdx-bjsa-esj



25-02-2023 & 03-03-2023

महिलाएं कर रहीं विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य



कुरुक्षेत्र। केयू के वुमन इन एसटीईएम (डब्ल्यू आईएस) फोरम ने शुक्रवार को महिलाओं की भूमिका पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि डॉ. ममता सचदेवा ने कहा कि विस फोरम उत्तर भारत का एक प्रमुख विज्ञान मंच है, जो कि छात्राओं में वैज्ञानिक प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और समर्पण ही सफलता की कुंजी है। समाज को छात्राओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महिलाएं विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं।





About us: The **Women in STEM (WIS) Forum, KUK** was established in 2019. Constitution of the WIS Forum, KUK was initiated by Prof Anurekha under the guidance of **Prof. Rohini Godbole** and **Prof. Ashutosh Sharma**, Secretary Department of Science and Technology, New Delhi after a two day workshop on “**Opportunities and Challenges for Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)**” organized in Kurukshetra University Kurukshetra .

Vision: To create awareness regarding career, opportunities and funding schemes in STEM especially for women students, researchers and faculty in STEM so as motivate and retain Women in Science through interactions with senior and accomplished women faculty members in STEM within and outside university.

Mission: To contribute to quality improvement, building scientific temper and to recommend management practices for motivation, retention and continuity of Women in STEM by targeting women student, researchers and faculty in the faculties of Science, Technology, Engineering and Mathematical Sciences.

Contact Us details: wisforum@kuk.ac.in

Executive members of the Women in STEM Forum, KUK (2021-24)

Photo	Details
	<p>Prof. Neera Raghav: Co-ordinator (2021-24) Qualification: M.Sc., Ph.D. Chemistry Specialization: Organic Chemistry Research Areas: Medicinal Chemistry, Development of Drug-delivery systems, Validation of Ayurvedic formulations, Development of functional foods, Development of Enzyme Inhibitors of potential medicinal Interests Email: nraghav@kuk.ac.in Contact details: 9896918277</p>
	<p>Prof. Sunita Dalal Qualification: M.Sc, Ph.D, NET, GATE Specialization: Biochemistry, Bioinformatics, Molecular biology & Medicinal plants (microbial, enzymatic and in silico) Research Areas: Contact details: E-mail: sdalal@kuk.ac.in</p>
	<p>Dr. Suman Mehendia (Secretary 2021-22) Qualification: M.Sc, Ph.D. Specialization: Experimental Physics Research Areas: Material Science Contact details: 01744-238410 E-mail: smahendia@kuk.ac.in</p>



Dr. Urmilla

Qualification: M.Sc., Ph.D

Specialization: Chemistry

Research Areas: Organic synthesis

Contact details: 9466271317

E-mail: urani2015@kuk.ac.in



Dr. Pooja

Qualification: M.Sc (Gold Medalist). Ph.D. NET

Specialization: Ecology, Carbon Sequestration

Research Areas: Ecology, Carbon Sequestration, Climate Change, Environmental Awareness, Heavy Metal Assessment

Contact details: 8168674425

E-mail: mpooja@kuk.ac.in



Dr. Anju

Qualification: M. PHARMACY

Specialization: Pharmaceutical Chemistry

Research Areas: HPLC

Contact details: 01744-238196, 238410, 238629, 238679

E-mail: anju.pharma19@kuk.ac.in



Dr. Ruchi (Secretary (2022-23))

Qualification: M.Sc (Electronic Science), M.Tech (Microelectronics and VLSI Dsign), Ph.D. (IIT Roorkee

Specialization: Microelectronics and VLSI Design, Low power Design, Memory D...

Research Areas:

Contact details: 9812796828

E-mail: ruchigupta@kuk.ac.in



Nominated Member: Dr. Suresh Dua

Qualification: M.Sc., Ph.D. Chemistry

Specialization: Organic Chemistry

Research Areas: Synthetic chemistry, Heterocyclic chemistry, Medicinal chemistry, Green chemistry, Process development

Contact details: 9215864888

E-mail: sureshkum@kuk.ac.in



Nominated Member: Dr. Hardeep Rai Sharma

Qualification: M.Sc., M.Tech., Ph.D. NET

Specialization: Energy and Environmental Management Research Areas:


Water quality management

Research Areas:

Contact details: 9034941121

E-mail: hrai@kuk.ac.in

Template for WiS members of the Forum

Photo	Details of WiS forum member
Department of Chemistry	
	Name of the WIS Member: Prof. Neera Raghav Qualification: M.Sc., Ph.D. Chemistry Specialization: Organic Chemistry Research Areas: Medicinal Chemistry, Development of Drug-delivery systems, Validation of Ayurvedic formulations, Development of functional foods, Development of Enzyme Inhibitors of potential medicinal Interests Email: nraghav@kuk.ac.in Contact details: 9896918277



Name of the WIS Member: Prof. Ranjana Aggarwal
Qualification: M.Sc., Ph.D. Chemistry
Specialization: Organic Chemistry
Research Areas: Synthetic chemistry, Heterocyclic chemistry, Fluorine chemistry, Medicinal chemistry, Computational chemistry

Email: ranjanaaggarwal67@gmail.com

Contact details: 9896740740



Name of WIS Member - Prof. Kiran Singh
Qualification- M.Sc., Ph.D. Chemistry
Specialization- Inorganic Chemistry
Research Areas- Organometallic, Coordination Chemistry, Synthetic Inorganic Chemistry
Contact details- knsingh@kuk.ac.in, kiransinghkuk@gmail.com
Office Contact No- 9812137734



Name of the WIS Member:
Qualification: M.Sc., Ph.D. Chemistry
Specialization: Physical Chemistry
Research Areas: Theoretical and Computational chemistry
Contact details: 9416979650
E-mail: - ssangeeta.saini@kuk.ac.in
Office Contact Number: ssangeeta.saini@kuk.ac.in



Name of the WIS Member: Dr. Ashu Chaudhary

Qualification: M.Sc., Ph.D. Chemistry

Specialization: Inorganic Chemistry

Research Areas: Nano-metal chemistry,
Bioinorganic chemistry, Green Chemistry,
Synthetic

Contact details: 9729864551

E-mail: ashuchaudhary@kuk.ac.in



Name of the WIS Member:

Qualification: M.Sc., Ph.D. Chemistry

Specialization: Inorganic Chemistry

Research Areas: Analytical Chemistry,
Inorganic Chemistry, OLED's,
Luminescent complexes

Contact details: 999689081

E-mail: ritu.langyan@kuk.ac.in



Name of the WIS Member: Dr. Vandana Pandey

Qualification: M.Sc., Ph.D. Chemistry

Specialization: Inorganic Chemistry

Research Areas: Theoretical Chemistry,
Inorganic Chemistry

Luminescent complexes

Contact details: 8708180979

E-mail: vandanap.chem@kuk.ac.in

Department of Electronics Science



Name of the WIS Member: Dr. Anurekha Sharma

Qualification: M.Sc (Phy), M.Tech (Computer, Electronics and Communication, Ph.D (Electronic Science) Eng, Ph.D (Electronic Science)g.),

Specialization: MEMS, Electronic Communication

Research Areas: Broad Area : MEMS, Specific Area Piezoelectric Energy Harvesting, MEMS Design and Simulation, MEMS based applications

Contact details: 9416911941

E-mail: anurekhasharma@kuk.ac.in



Name of the WIS Member: Dr. Ruchi Gupta

Qualification: M.Sc (Electronic Science), M.Tech (Microelectronics and VLSI Dsign), Ph.D. (IIT Roorkee

Specialization: Microelectronics and VLSI Design, Low power Design, Memory D...

Research Areas:

Contact details: 9812796828

E-mail: ruchigupta@kuk.ac.in

Department of Computer Sciences & Applications



Name of the WIS Member: Dr. Suchita Upadhyaya

Qualification: Ph.D , M.C.A.

Specialization: Computer Networks, Data Communication, Computer Graphics

Research Areas:

Contact details: 9416201634

E-mail: shuchita_bhasin@yahoo.com



Name of the WIS Member: Dr. Monika
Qualification: Ph.D., M.Sc. Computer Science (Software)
Specialization: Computer Network, Web Technology, Mobile Application Development
Research Areas:
Contact details: 8708956808
E-mail: monicaporiye@gmail.com



Name of the WIS Member: Dr. Yogita Sangwan
Qualification: Ph.D, M.Tech, M.Phil, MCA
Specialization: Networking
Research Areas: Adhoc Networks and Network Security
Contact details: 9416376459
E-mail: yogita_dcsa@kuk.ac.in

Department of Geophysics



Name of the WIS Member: Dr. Manisha Sanshu
Qualification: M.Tech.(Applied Geophysics), Ph. D.
Specialization: Seismology
Research Areas: Deterministic seismic hazard assessment (DSHA), Site amplification function for the NCR., simulation of strong ground motion for the seismic hazard assessment, Attenuation studies
Contact details: 9996604087
E-mail: manisha_sandhu@kuk.ac.in

Department of Geography



Name of the WIS Member: Prof. Rajeshwari
Qualification: Ph.D.
Specialization: Human and Social Geography, Gender Geography, Remote Sensing and GIS.
Research Areas: Issues of social relevance with geographical perspective
Contact details: 8901164014
E-mail: rajeshwari@kuk.ac.in



Name of the WIS Member: Dr. Suman Chauhan

Qualification: Ph.D

Specialization: Settlement Geography

Research Areas: Settlement Geography and Agriculture Geography

Contact details: 9896320200 / 01744-238410-3026

E-mail: schauhan.geography@kuk.ac.in



Name of the WIS Member: Dr. Anju Gupta

Qualification: M.A/Ph.D

Specialization: Physical Geography

Research Areas: Landslides, Floods, Hydrology, Earthquakes

Contact details: 9416100758

E-mail: agupta.geography@kuk.ac.in

Department of Physics



Name of the WIS Member: Dr. Annu Sharma

Qualification: M.Sc., Ph.D.

Specialization: Experimental Physics


Research Areas: Material Science

Contact details: 01744-238410

E-mail: asharma@kuk.ac.in



Name of the WIS Member: Dr. Suman Mehendia
Qualification: M.Sc, Ph.D.
Specialization: Experimental Physics
Research Areas: Material Science
Contact details: 01744-238410
E-mail: smahendia@kuk.ac.in



Name of the WIS Member: Dr. Renu Gupta
Qualification: M.Sc, Ph.D.
Specialization: Experimental Physics
Research Areas: Material Science
Contact details: 01744-238410, Ext. 2482
E-mail: drrenugupta@kuk.ac.in



Name of the WIS Member: Dr. Ritu Rani
Qualification: M.Sc, Ph.D
Specialization: Experimental Physics
Research Areas: Material Science
Contact details: 01744-238410, Ext. 2482
E-mail: rituphysics@gmail.com



Name of the WIS Member: Dr. Ritu Rani
Qualification: M.Sc, Ph.D
Specialization: Experimental Physics
Research Areas: Material Science
Contact details: 01744-238410, Ext. 2482
E-mail: mahak@kuk.ac.in

Department of Geology



Name of the WIS Member: Ms. Sarita Mann
Qualification: M.Sc., CSIR-UGC NET
Specialization: Mining Geology, Geomorphology, Geochemistry, Environmental Geology, Economic Geology
Research Areas: Geochemistry, Petrology, and Groundwater studies.
Contact details: 8053221681
E-mail: saritamann@kuk.ac.in



Name of the WIS Member: Ms. Swati Rana
Qualification: M.Sc., CSIR-UGC NET
Specialization: Geochemistry, Igneous and Metamorphic Petrology
Research Areas: Geochemistry, Igneous and Metamorphic Petrology
Contact details: 8053762809
E-mail: swatirana@kuk.ac.in

Department of Statistics and Operational Research






Name of the WIS Member: Prof. Indra Rani
Qualification: M.Sc., M.Phil., Ph.D., PGDCA
Specialization: Statistical Inference, Sampling Mathematical Programming Industrial Statistics
Research Areas: Design and Analysis of Queuing Models
Contact details: 9896842641
E-mail: indra@kuk.ac.in

Department of Mathematics



Name of the WIS Member: Mrs. Sumitra Devi
Qualification: M.Sc., M.Phil.
Specialization: Applied Mathematics
Research Areas: Boundary Value Problems
Contact details: 9896317801
E-mail: sumitra.math@kuk.ac.in

For Research Scholar

Photo	Details
Department of Chemistry	
	<p>Name of the Research Scholar: Aarzoo Start Date of Research Work: 15-11-2019 Name of Research Topic: Thermodynamics of binary liquid mixture E-mail: chem2022aarzoophd@kuk.ac.in</p>
	<p>Name of the Research Scholar: Amisha Start Date of Research Work: 28-04-2022 Name of Research Topic: Reinforcement and dispersal of some additives in natural and synthetic polymers E-mail: chem20212025amishaphd@kuk.ac.in</p>
	<p>Name of the Research Scholar: Bavita Kumari Start Date of Research Work: 21-11-2017 Name of Research Topic: Coordination chemistry E-mail: chem2022bavitaphd@kuk.ac.in</p>
	<p>Name of the Research Scholar: Bhavna Start Date of Research Work: 26-09-2018 Name of Research Topic: Synthetic and biological studies of some heterocyclic compounds E-mail: chem2022bhavnaphd.kuk.ac.in</p>
	<p>Name of the Research Scholar: Chanchal Start Date of Research Work: 01-05-2021 Name of Research Topic: Studies on some natural products E-mail: chem20212025chanchalphd@kuk.ac.in</p>
	<p>Name of the Research Scholar: Geetanjali Start Date of Research Work: 21-09-2017 Name of Research Topic: Thermal and mechanical properties</p>



of polymer composites
E-mail: chem2022geetanjalphd@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Kavita Sharma
Start Date of Research Work: 14-10-2019
Name of Research Topic: Natural products analogs as
enzyme inhibitors
E-mail: chem2022kavitaphd@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Kiran Siwach
Start Date of Research Work: 20-09-2018
Name of Research Topic: Synthesis of heterocyclic
compounds and their precursors of potential medicinal interest
E-mail: chem2022kiranphd@kuk.ac.in




Name of the Research Scholar: Meena Devi
Start Date of Research Work: 20-09-2018
Name of Research Topic: Synthesis and biological studies of
heterocyclic compounds
E-mail: chem2022meenaphd@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Pinki
Start Date of Research Work: 14-10-2019
Name of Research Topic: Studies On Biological And Applied Aspects Of
Nickel, Platinum And Palladium Based Bimetallic Molecules
E-mail: pinkiboora19@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Priyanka Devi
Start Date of Research Work: 26-09-2018
Name of Research Topic: Coordination Compounds
E-mail: chem2022priyankaphd@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Rachana
Start Date of Research Work: 14-10-2019
Name of Research Topic: Studies Of Thermophysical Properties Of Liquids And Liquid Mixtures
E-mail: chem2022rachanaphd@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Shiwani
Start Date of Research Work: 29-04-2021
Name of Research Topic: Transition Metal Based Mofs For Energy Storage Devices
E-mail: chem20212025shiwaniaphd@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Simran
Start Date of Research Work: 9-10-2019
Name of Research Topic: Bioplastics
E-mail: chem2022simranphd@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Sunita
Start Date of Research Work: 10-10-2019
Name of Research Topic: Design, Synthesis And Characterization Of Metal Complexes With Multifaceted Value
Contact details:
E-mail: khatkarsunita12@kuk.ac.in



DEPARTMENT OF STATISTICS AND OPERATIONAL RESEARCH



Name of the Research Scholar: Rita Rani
Start Date of Research Work: 14-01-2015
Name of Research Topic: Reliability Modeling and Analysis
E-mail: rita.gaur12@gmail.com

Name of the Research Scholar: Sapna Saini
Start Date of Research Work: 19-04-2016



Name of Research Topic: Reliability Theory
E-mail: sapnahamidpur@gmail.com



Name of the Research Scholar: Ritu Rathi
Start Date of Research Work: 03-10-2017
Name of Research Topic: Reliability Modeling and Analysis of some Industrial System
E-mail: rathiritu07@gmail.com



Name of the Research Scholar: Shweta Malik
Start Date of Research Work: 03-10-2017
Name of Research Topic: Reliability Theory
E-mail: shwetamalik9927@gmail.com



Name of the Research Scholar: Preeti
Start Date of Research Work: 14-10-2019
Name of Research Topic: Reliability Analysis of Redundant Systems
E-mail: singhal.preeti1994@gmail.com

DEPARTMENT OF GEOLOGY



Name of the Research Scholar: Rashmi Panwar
Start Date of Research Work: 18-03-2014
Name of Research Topic: Micropalaeontological investigations and Palynofacies analysis of Subathu Formation of Nilkanth-Dugadda area, garhwal himalaya, india
E-mail: rashmipanwar2009@kuk.ac.in

DEPARTMENT OF MATHEMATICS



Name of the Research Scholar: Ms.Komal
Start Date of Research Work: 10/10/2019
Area of Research/Name of Research Topic: Mathematical modelling on transmission dynamics of infectious diseases
E-mail: komalbakhtua01@kuk.ac.in

DEPARTMENT OF GEOPHYSICS

Name of the Research Scholar: Ms. Anjali Sharma
Start Date of Research Work: 22-03-2016
Name of Research Topic: Evaluation of Seismic Hazard Based on Simulation of Earthquake Strong Ground Motions
E-mail: anjali.geophy@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Ms. Charu Kamra
Start Date of Research Work: 22-03-2016
Name of Research Topic: Characterization of Interplate And
Intraplate Earthquakes In Terms Of Focal mechanisms, Source Parameters
And Response Spectra
E-mail:

DEPARTMENT OF ELECTRONICS SCIENCE



Name of the Research Scholar: GURPREET KAUR
Start Date of Research Work: 28-04-2021
Name of Research Topic: NANOTECHNOLOGY AND
MATERIAL SCIENCE / DEVELOPMENT OF SnO₂ BASED
NANOSTRUCTURES AS PHOTOANODE FOR DYE SENSITIZED
SOLAR CELL
E-mail: gurpreet.electsc@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Suruchi Saini
Start Date of Research Work: 28-04-2021
Name of Research Topic: Microelectronics
E-mail: suruchi.electsc@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Priyanka Nautiyal
Start Date of Research Work: 17-08-2021
Name of Research Topic: Modeling, Simulation and Application of
AlGan/Gan High Electron Mobility Transistor
E-mail: elsd2020priyanka@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Manisha Dagar
Start Date of Research Work: 02-03-2021
Name of Research Topic: Synthesis & Characterization of Semiconductor
Nanostructures for different applications
E-mail: Manishadagar47@gmail.com



Name of the Research Scholar: Mahak Kalra
Start Date of Research Work: 18-09-2015
Name of Research Topic: Microelectronics
E-mail: rsdeshwal@gmail.com

Name of the Research Scholar: Veenu Choudhary
Start Date of Research Work: 24-03-2015
Name of Research Topic: Design study and development of

Adaptive Optics Correction using MEMS based deformable mirror for turbulence correction
E-mail: Chaudhary.veenu@gmail.com

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND APPLICATIONS



Name of the Research Scholar: SONALI
Start Date of Research Work: 28.04.2021
Name of Research Topic:
E-mail: sona.bangia25@gmail.com



Name of the Research Scholar: NISHA
Start Date of Research Work: 28.04.2021
Name of Research Topic: "Computational Modeling of Sentiment Analysis for Polarity Detection".
E-mail: nisha.jrf.dcsa@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: PREETI
Start Date of Research Work: 29.04.2021
Area of Research/Name of Research Topic: "Security Issues And Challenges in IOT Environment & Designing Solutions For Them".
E-mail: preeti.sen50@yahoo.com



Name of the Research Scholar: SONIA
Start Date of Research Work: 28.04.2021
Name of Research Topic: "Design And Development of Efficient Load Balancing Algorithms for Cloud Computing".
E-mail: sharmasonia246@gmail.com



Name of the Research Scholar: Manju Sharma
Start Date of Research Work: 30.08.2020
Name of Research Topic: " Data Clustering using Metaheuristic Techniques "
E-mail: manjusharmaknl@gmail.com

Name of the Research Scholar: Jyoti
Start Date of Research Work: 02.02.2021
Name of Research Topic: "A Machine Learning Based Intelligent Approach for SEE Transmission in WSN".
E-mail: jsaini089@gmail.com



Name of the Research Scholar: NEHA
Start Date of Research Work: 14.10.2019
Name of Research Topic: “Designing a Framework For Sentiment Analysis”
E-mail: nehadevsharma19@gmail.com



Name of the Research Scholar: KIRTI GUPTA
Start Date of Research Work: 14.10.2019
Name of Research Topic: “Predictive Analysis using Machine Learning Techniques”
E-mail: kirtigupta811@gmail.com



Name of the Research Scholar: KARTIKA MAKKAR
Start Date of Research Work: 16.10.2019
Name of Research Topic: “Review Based Data Analytics”
E-mail: sonikartika19@gmail.com



Name of the Research Scholar: JYOTI
Start Date of Research Work: 16.10.2019
Name of Research Topic: “Analytical Evaluation and Emotion Detection in Code-Mixed Text on Covid-19 Pandemic with Reference to India”.
E-mail: jyoti2cs@gmail.com



Name of the Research Scholar: PARBHJOT KAUR
Start Date of Research Work: 20.03.2020
Name of Research Topic: Biometric Framework for Securing IoT Environment.
E-mail: pjmahi8@gmail.com



Name of the Research Scholar: ANKITA
Start Date of Research Work: 20.09.2018
Name of Research Topic: Hybridization Of Metaheuristics In Combinatorial Optimization Problems
E-mail: ankuchiks12@gmail.com



Name of the Research Scholar: JYOTI RANI
Start Date of Research Work: 27.03.2019
Name of Research Topic: SECURITY IN CLOUD COMPUTING
E-mail: jyoti41nagwan@gmail.com



Name of the Research Scholar: SMITA SHARMA
Start Date of Research Work: 20.09.2017
Name of Research Topic: "Preserving Privacy in Cloud Computing Environment"
E-mail: smita148.sharma@gmail.com



Name of the Research Scholar: MEENAKSHI DEVI
Start Date of Research Work: 06.01.2018
Name of Research Topic: Basic Concepts of Neuro Computing
E-mail: menakshichouhan@gmail.com



Name of the Research Scholar: POONAM BHATIA
Start Date of Research Work: 06.01.2018
Name of Research Topic: "Improving Hybrid Methods for Sentiment Analysis/Opinion Mining"
E-mail: poonambhatia02@gmail.com



DEPARTMENT OF PHYSICS



Name of the Research Scholar: Preeti Chhokkar
Start Date of Research Work: 10-11-2015
Name of Research Topic: Material Science (Ion irradiation Induced effects on Polymers)
E-mail:



Name of the Research Scholar: Vandana
Start Date of Research Work: 28-03-2016
Name of Research Topic: Nano patterning of semiconductor surface using ion beam irradiation.
E-mail: panchalvandy@gmail.com



Name of the Research Scholar: Sapna Kumari
Start Date of Research Work: 31-05-2017
Name of Research Topic: (Materials Science) Structural, Dielectric and Ferroelectric Properties of Lead-Free Perovskite Ferroelectric Ceramics
E-mail: sapna12@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Nirupama Kumari
Start Date of Research Work: 20-09-2018
Name of Research Topic: Theoretical Nuclear Physics (Study of Dynamics



of Nuclear Fusion Reactions producing Super heavy Nuclei)
E-mail: nirupama1214@gmail.com



Name of the Research Scholar: Sangeeta
Start Date of Research Work: 20-09-2018
Name of Research Topic: Material Science (Optical, Electrical and
Magnetic Responses of SnO₂ Based Nanoparticles)
E-mail: sangeeta@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Ritu Jangra
Start Date of Research Work: 24-09-2018
Name of Research Topic: Material Science
E-mail: ritu.physics@kuk.ac.in, rjangra9479@gmail.com



Name of the Research Scholar: Nisha Malik
Start Date of Research Work: 29-03-2019
Name of Research Topic: Material Science
E-mail: nishamalik1774@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Navneet Kaur
Start Date of Research Work: 10-10-2019
Name of Research Topic: Material Science (Synthesis and Characterization
of Biodegradable polymer based Nanocomposites
E-mail: navneetk846@gmail.com



Name of the Research Scholar: aNJU DUTT
Start Date of Research Work: 15-05-2019
Name of Research Topic: Material Science
E-mail: anju.ihs@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Jaspreet Kaur
Start Date of Research Work: 19-03-2020
Name of Research Topic: Material Science (Synthesis, Characterization
and Properties of 2D Transition Metal Dichalcogenide Materials)
E-mail: jaspreetkaur.aries@gmail.com



Name of the Research Scholar: Ms. Mansi Malik
Start Date of Research Work: 19-03-2020
Name of Research Topic: Material Science Contact details:
Department of Physics, Kurukshetra University, Kurukshetra
E-mail: mansimalik@kuk.ac.in, mansimalik437@gmail.com

Name of the Research Scholar: Savita
Start Date of Research Work: 28-08-2020



Name of Research Topic: Material Science(Ion Irradiation Induced Modification of Nanocomposites)
E-mail: savitask43@gmail.com

Name of the Research Scholar: Kalpana
Start Date of Research Work: 27-04-2021
Name of Research Topic: Material Science
E-mail: phd.kalpana@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Kafi Devi
Start Date of Research Work: 28-04-2021
Name of Research Topic: Material Science
E-mail: phd.kafi@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Usha Rani
Start Date of Research Work: 28-04-2021
Name of Research Topic: Material Science
E-mail: phd.usha@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Priyanka
Start Date of Research Work: 28-04-2021
Name of Research Topic: Theoretical Physics / Ab-Initio
Study of Transition Metal Dichalcogenide Monolayer for Optoelectronic Application
E-mail: priyanka.scholar@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Kajal
Start Date of Research Work: 23-10-2021
Name of Research Topic: Experimental Nuclear Physics
E-mail: phy2123kajal1@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Himanshi
Start Date of Research Work: 20-10-2018
Name of Research Topic: Women Employment in Organized and Unorganized Sectors in Haryana: A Socio-Spatial Analysis
E-mail: geog1824himanshi@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Annu
Start Date of Research Work: 20-10-2018
Name of Research Topic: Women and Children Health in Rural Uttarakhand: A Geographical Analysis
E-mail: geog1824annu@kuk.ac.in

DEPARTMENT OF GEOGRAPHY



Name of the Research Scholar: Preeti Verma
Start Date of Research Work: 09-10-2019
Name of Research Topic: Urban Sprawl and Land

E-mail: geog1925preeti@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Swati Sharma
Start Date of Research Work: 09-10-2019
Name of Research Topic: Dynamics of Groundwater and its Management in Jammu District: A Spatio-Temporal Approach
E-mail: geog1925swati@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Neha Khajuria
Start Date of Research Work: 31-08-2020
Name of Research Topic: Identification of Urban Heat Islands of Jaipur City: Its Determinants, Impacts and Predictions
E-mail: geog2026nehakhajuriajrf@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Ms. Jyoti
Start Date of Research Work: 01-09-2020
Name of Research Topic: Hydrological Characteristics, Pattern and Processes of Sediment Flux in Narmada River Basin
E-mail: geog2026jyotijrf@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Alka
Start Date of Research Work: 01-09-2020
Name of Research Topic: Living Environment and Social Wellbeing of Children in Haryana: A Micro Level Analysis
E-mail: geog2026alkajrf@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Divya Saini
Start Date of Research Work: 23-01-2021
Name of Research Topic: Exploring drought and its impact on water resources and agriculture in Banas river basin of Rajasthan, India
E-mail: geog2127divyajrf@kuk.ac.in



Name of the Research Scholar: Nishu
Start Date of Research Work: 28-04-2021
Name of Research Topic: Availability and Utilization of Public Health Infrastructure in NCT Delhi with Special Reference to Primary Health Care
E-mail: geog2127nishu@kuk.ac.in

Name of the Research Scholar: Simran
Start Date of Research Work: 15-07-2022
Name of Research Topic:



E-mail: geog2228simran@kuk.ac.in

Name of the Research Scholar: Asha
Start Date of Research Work: 14-07-2022
Name of Research Topic:
E-mail: geog2228asha@kuk.ac.in